



आयुक्त (अपील) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan.

रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com



सत्यमेव जयते

रजिस्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा :-

क	अपील / फाइल संख्या / Appeal / File No.	मूल आदेश सं / OIO No.	दिनांक / Date
	V2/224/RAJ/2016	02/SUPDT/C.EX./AR-V/2016-17	05.08.2016

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-068 -2017-18

आदेश का दिनांक / Date of Order:	19.09.2017	जारी करने की तारीख / Date of issue:	21.09.2017
------------------------------------	------------	--	------------

कुमार संतोष, आयुक्त (अपील), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by Shri Kumar Santosh, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अथ आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम/ द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सुनिश्चित /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Service Tax, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ **अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name&Address of the Appellant & Respondent :-**
M/s. Amul Industries P. Ltd., 2. Aji Industrial Estate., Plot No. 332-333, Opp. Boring House.,Rajkot - 360 003

इस आदेश(अपील) से उपरलिखित कोई व्यक्ति विमनसिद्धित तरीके से उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील टाया कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलार्थी न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अन्तर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अन्तर्गत विमनसिद्धित जहाँ की जा सकती है। /

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) सर्वोच्च न्यायालय से सम्बन्धित सभी मामलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलार्थी न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, अर के पुरम, नई दिल्ली, को भी जानी चाहिए। /

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बतलाया गया अपील के अलावा शेष सभी अपील सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलार्थी न्यायाधिकरण (जिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिन, द्वितीय तल, बहामनी भवन अहमदाबाद- 380016, को भी जानी चाहिए। /

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd Floor, Bhaumik Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलार्थी न्यायाधिकरण के समक्ष अपील चरलुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अन्तर्गत निर्धारित फॉर्म एवं प्रथम EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहाँ उत्पाद शुल्क की राशि अथवा की सीमा और अथवा सेवा शुल्क, अथवा 5 लाख या उससे कम, 5 लाख अथवा 50 लाख अथवा 50 लाख अथवा से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति अलग करे। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलार्थी न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सर्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहाँ संबंधित अपीलार्थी न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। अथवा आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(B) अपीलार्थी न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अन्तर्गत सेवाकर विमनसिद्धित, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित फॉर्म S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है, उसकी प्रति साथ में अलग करे (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहाँ सेवाकर की राशि अथवा की सीमा और अथवा सेवा शुल्क, अथवा 5 लाख या उससे कम, 5 लाख अथवा 50 लाख अथवा 50 लाख अथवा से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति अलग करे। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलार्थी न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सर्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहाँ संबंधित अपीलार्थी न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। अथवा आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fee of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-

(i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 85 की उप-धारा (2) एवं (2A) के अंतर्गत दंड की सही प्रतीक, सेवाकर विधिसूची, 1994 के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित फॉर्म S.T.-7 में की जा सकती एवं उसके साथ अप्रत्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा अनुसूक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा जारी आदेश की प्रतियाँ संलग्न करे (जहाँ से एक प्रति संशोधित होनी चाहिए) और अप्रत्यक्ष द्वारा सेवाकर अनुसूक्त अथवा अनुसूक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवाकर की अपील/न्यायाधिकरण को आवेदन दान करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति को साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub-section (2) and (2A) of the section 85 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) सेवा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील/न्यायाधिकरण (सेस्टैट) के प्रति अपील के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपील/न्यायाधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर शुल्क के 10 प्रतिशत (10%), जब मात्र एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपीलित टैक्स रॉकेट टैक्स को साथ में संलग्न करा जाये। / केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत 'जमा किए गए शुल्क' में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
- (ii) सेस्टैट जमा की गई गारंटी राशि
- (iii) सेस्टैट जमा निष्पत्ती के नियम 8 के अंतर्गत टैक्स रकम

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के अंतर्भ में पूर्व किसी अपील/न्यायाधिकरण के समक्ष विवादाधीन स्थिति नहीं एवं अपील को लागू नहीं होगी। /

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include

- (i) amount determined under Section 11 D
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken
- (iii) amount payable under Rule 8 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन / Revision application to Government of India

इस आदेश की पुनरीक्षण अधिकार विभागाधिकृत मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धारा 35EE के प्रावधानों के अंतर्गत अद्य संशोधित, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त विभाग, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद भवन, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid

(i) यदि आर के किसी बंधन के अंतर्गत में, जहां बंधन किसी आर को किसी बंधन में अंतर नष्ट के कारण के दौरान या किसी अन्य बंधन या फिर किसी एक बंधन नष्ट से दूसरे बंधन नष्ट कारणों के दौरान, या किसी बंधन नष्ट से या अंतर में आर के कारण के दौरान, किसी बंधन या किसी बंधन नष्ट से आर के नुकसान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे आर के निर्यात में प्रयुक्त कच्चे आर पर अर्पित नष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कुछ (रिबेट) के अंतर्गत में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को आर निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के अंतर्गत के लिए जो इच्छी केंद्रित इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत लागू की गई है और ऐसे आदेश जो अनुसूक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (सं. 2) 1996 की धारा 109 के द्वारा वित्त की गई जातीय अथवा महासंघर्ष पर या बट में स्थिति किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1996.

(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियाँ फॉर्म संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) विधिसूची, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत निर्दिष्ट है, इस आदेश के अंतर्गत के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियाँ संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की प्रत्यापनी के अन्वय के लिए पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the O/O and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की प्रत्यापनी की जानी चाहिए। / जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/- का भुगतान किया जाए। / The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपरोक्त धारा में किया जाना चाहिए। इस (संघ) के होने पर भी की निम्न परी बटों से बचने के लिए संशोधित अपील/न्यायाधिकरण में एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाना है। / In case, if the order covers various numbers of order in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scripps work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each

(E) बकाया/निर्धारित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसूक्त मूल आदेश एवं संलग्न आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended

(F) सेवा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील/न्यायाधिकरण (संशोधित) विधिसूची, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों की अधिनियमित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाना है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(G) उच्च अपील/न्यायाधिकरण को अपील दायित्व करने में संबंधित न्यायक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपील/न्यायाधिकरण वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

:: ORDER IN APPEAL ::

M/s. Amul Industries P. Ltd. (Unit-V), Opp : Saral Stove, Plot No. 16, B/h Sahyog, Aji GIDC Area, Rajkot – 360 003 (*hereinafter referred to as 'the appellant'*) has filed the present appeals against the Order-In-Original No..02/SUPDT/C.EX/AR-V/2016-17 dated 05.08.2016 (*hereinafter referred to as "the impugned order"*) passed by the Superintendent, Central Excise A.R.-V, Rajkot (*hereinafter referred to as "the lower adjudicating authority"*).

2. The facts of the case are that during the course of Audit for the period from January 2009 to December 2013, discrepancies of (i) Wrongly availed CENVAT credit twice in respect of various invoices of input service involving totally credit of Rs. 70,040/- (Para –1 of Final Audit Report No. D-882/2013-14 (ii) Excess availment of CENVAT credit of Rs. 2,936/- in respect of input service tax (Para – 3 of Final Audit Report No. D-882/2013-14) were noticed. The appellant agreed with the observations and debited both entries on 05.02.2014 but refused to pay interest of Rs. 60,169/- and Rs. 1,478/- respectively on said amount. The appellant was issued Show Cause Notice No. CEx/AR-V/Amul-V/FAR-D882/2013-14 dated 27.01.2016, demanding interest on Rs. 60,169/- and Rs. 1,478/- totally Rs. 61,647/- for wrongly availed Cenvat credit under Rule 14 of the CCR,2004 read with Section 11A of the Central Excise Act, 1944 (*hereinafter referred to as "the Act"*). The lower adjudicating authority adjudicated the show cause notice vide impugned order and confirmed the demand of Interest of Rs. 61,647/- under rule 14 of the CCR,2004 read with Section 11AA of the Act.

3. Being aggrieved with the impugned order, the appellant preferred the present appeal inter-alia on the following grounds:

(i) Demand of Rs. 61,647/- on the ground that even if credit is not utilized, interest is payable is not Correct. The adjudicating authority has ignored the decisions referred to by them.

(ii) There was no suppression of fact by them and was not alleged in the SCN and hence the demand is barred by limitation of time.

4. Personal hearing in the matter was attended by Shri Paresh V. Sheth, Advocate, on behalf of the appellant who reiterated the grounds of appeal. He submitted that time period of limitation is applicable for demand of

interest also as held by the CESTAT in the case of India Medical Practitioner's Co-op. Pharmacy & Store Ltd. Reported as 2017(349) ELT 788 (Tri.-Chennai); that the ratio of the decision of CESTAT in Rolex Rings Pvt. Ltd. Is also applicable even now; that demand of interest is also covered by Section 11 of the Act. No one appeared from Department even once despite of P. H. notice issued to the Department and nothing was submitted.

FINDINGS

5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, appeal memorandum and records of the personal hearing. The limited issue to be decided in this appeal is as to, whether the appellant is required to pay interest where Cenvat credit wrongly taken on 30.04.2009 & 21.04.2011 but not utilized and whether demand of interest is hit by limitation of time in this case or not.

6. The lower adjudicating authority held that the Rule 14 of Cenvat Credit Rule, 2004 specifies "Recovery of CENVAT credit if taken wrongly or utilized wrongly or has been erroneously refunded" and interest is recoverable under Rule 14 of CCR, 2004 and referred to CBEC Circular No. 897/17/2009-CE dated 03.09.2009 wherein it has been stated that interest is payable even if credit taken wrongly but not utilized. The amendment in Rule 14 of CCR, 2004 stating taken wrongly and utilized also was made effective w.e.f. 17.03.2012 only whereas Cenvat credit has been wrongly taken on 30.04.2009 & 21.04.2011.

7. The appellant relied on CESTAT, Ahmedabad Order No. A/1679/WZB/AHD/2011 dated 26.09.2011 in the case of Rolex Rings P. Ltd. Vs CCE, Rajkot and on Indian Medical Practitioner's Co-op Pharmacy & Stores Ltd reported 2017 (349) E.L.T. 788 (Tri. Chennai). In both cases it has been held that interest can be demanded only under Section 11A of the Act and period of limitation provided therein for demanding duty is also applicable for demanding interest.

8. I find that demand of interest was for issues of wrongly taken Cenvat credit wrongly taken on 30.04.2009 & 21.04.2011 wherein the Show Cause Notice was issued on 27.01.2016 without invoking suppression of facts and extended period of time, as is evident from the SCN dated 27.01.2016.




8.1 Since, the SCN has not alleged suppression of facts by the appellant and also not invoked extended period of time, SCN issued on 27.01.2016 for interest on Cenvat credit wrongly taken on 30.04.2009 & 21.04.2011 is clearly time barred. Hence, I have no option but to set aside the impugned order on this ground alone and to allow the appeal filed by the appellant without going into other grounds of appeal.

9. In view of above, I set aside the impugned order and allow the appeal.

9.1 अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

9.1 The appeal filed by the appellant is disposed off in above terms.


(कुमार संतोष)
आयुक्त (अपील्स)

By R.P.A.D.

To

M/s. Amul Industries P. Ltd. (Unit-V),
Opp : Saral Stove, Plot No. 16,
B/h Sahyog, Aji GIDC Area,
Rajkot – 360 003

मेसर्स अमूल इंडस्ट्रीज प्रा. ली., (यूनिट-५)
सरल स्टोव के सामने, प्लॉट नं. १६, सहयोग के पीछे,
आजी इंडस्ट्रीअल इस्टेट, प्लॉट नं. ३३२, ३३३, बोरिंग
हाउस के सामने, राजकोट - ३६० ००३

Copy to:-

1. The Chief Commissioner, GST & Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad.
2. The Commissioner, GST & Central Excise Commissionerate, Rajkot.
3. The Assistant Commissioner, GST & Central Excise Division -I, Rajkot
4. The Superintendent, GST A.R.-V, Rajkot
5. Guard File.